

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

- (1) प्रकरण संख्या: 08/2018
(2) दायरा दिनांक: 09.7.2018

सायल

स्टेट जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, सिरौही

बनाम

गैरसायल

युनुस खां पुत्र अब्दुल करीम, जाति-मुसलमान, निवासी- छावणी, शिवगंज, जिला- सिरौही

“इस्तगासा अर्न्तगत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975”

उपस्थिति:

1. सहायक लोक अभियोजक
2. गैरसायल स्वयं, पुलिस अभिरक्षा में
3. श्री गजेन्द्र सिंह देवडा, गैरसायल की ओर से

-: निर्णय :-

दिनांक 17 जनवरी, 2019

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। जिला पुलिस अधीक्षक, सिरौही द्वारा गैरसायल युनुस खां पुत्र अब्दुल करीम, जाति-मुसलमान, निवासी- छावणी, शिवगंज के विरुद्ध यह इस्तगासा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा- 3 के तहत प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि गैरसायल आले दर्जे का जुआरी है एवं जुआं के अपराध करने का आदि है। जो आम लोगों को जुआं खेलने के लिये प्रेरित कर जुआं खेलाता रहता है। गैरसायल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के बावजूद भी उक्त अपराध पर रोक नहीं लग पाई है। गैरसायल का जुआ खेलने व खिलाने से आम लोगों व बच्चों पर दुष्प्रभाव की शिकायत समय समय पर मिलती रहती है, लेकिन गैरसायल के विरुद्ध साक्ष्य देने हेतु लोग तैयार नहीं होते हैं। गैरसायल के विरुद्ध जुआं खेलते पकडा जाने पर पुलिस थाना शिवगंज में राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत 2 प्रकरण दर्ज हुये हैं तथा इन दोनों प्रकरणों में गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये जिनमें संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराते हुए जुमाने/सजा से दण्डित किया है। गैरसायल जुआं खेलने में लिप्त है जो बावजूद सजा के भी निरन्तर आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त है जो आदतन जुआं खेलने व आम लोगों को जुआं खेलने के लिये प्रेरित करने से आम जनता में भय व्याप्त है व लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते हैं। गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(बी)3(सी) में वर्णित अपराध करने का आदि है और मौजूदा समय में ऐसे अपराध करने में लिप्त है, इसलिये गैरसायल के विरुद्ध कानूनी सलूक फरमाकर जिले से निष्कासित किया जावे।

(2) प्रस्तुत इस्तगासे पर गैरसायल के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर गैरसायल को नोटिस जारी किया गया एवं नोटिस के साथ गैरसायल पर लगाये गये आरोपों की प्रति

.....पेज दो पर

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरौही-307001.



भी तामिल करवाई गई, लेकिन गैरसायल को नोटिस व आरोप पत्र की प्रति तामिल होने के बावजूद भी गैरसायल इस प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक पर उपस्थित नहीं हुआ। जिस पर गैरसायल के विरुद्ध गिरफ्तारी वारन्ट जारी किया जाकर तामिली हेतु थानाधिकारी, पुलिस थाना, शिवगंज को भिजवाया गया। प्रकरण में गैरसायल को पुलिस थाना, शिवगंज द्वारा गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में आज दिनांक 17.01.2019 को इस न्यायालय में पेश किया गया। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह देवडा उपस्थित हुये। गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छा से जुर्म/आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का अनुरोध किया गया।

(3) प्रकरण में गैरसायल द्वारा आरोप स्वीकार कर लिये जाने से सहायक लोक अभियोजक एवं गैरसायल के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। सहायक लोक अभियोजक ने बहस के दौरान इस्तगासें में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत पुलिस थाना शिवगंज में 2 प्रकरण दर्ज हुये जिनमें गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये एवं इन दोनों प्रकरणों में संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराते हुए सजा/जुर्माने से दण्डित किया गया है। गैरसायल आले दर्जे का जुआरी है तथा जुआ संबंधी अपराधों में लिप्त है। इसकी ऐसी आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र में कई गरीब परिवार अपनी जमा पूंजी जुए में गवा चुके हैं। गैरसायल के ऐसे आपराधिक कृत्यों से आम जन में भय व्याप्त है तथा लोग इसके विरुद्ध साक्ष्य देने से कतराते हैं, इसलिये गैरसायल की इन आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु गैरसायल को छः माह की अवधि के लिये जिले से निष्कासित किया जावे। जबकि गैरसायल के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि गैरसायल ने उक्त मुकदमों में लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया था। गैरसायल गत दो वर्षों से अधिक समय से किसी भी अपराध या जुआ संबंधी अपराधों में लिप्त नहीं है। गैरसायल वर्तमान में शांतिपूर्ण जीवन यापन कर रहा है। गैरसायल मजदूरी करके अपना व परिवार का भरण पोषण कर रहा है। गैरसायल ने कभी शांति भंग नहीं की है व न ही कभी किसी भी व्यक्ति के साथ झगडा फिसाद किया है। गैरसायल अब अपराध नहीं करेगा, इसलिये गैरसायल के विरुद्ध यह कार्यवाही ड्रॉप की जाकर गैरसायल को पुलिस अभिरक्षा से रिहा करने के आदेश पारित किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली उपलब्ध साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक, सिरौही की रिपोर्ट अनुसार गैरसायल युनुस खां पुत्र अब्दुल करीम, जाति-मुसलमान, निवासी- छावणी, शिवगंज के विरुद्ध पुलिस थाना, शिवगंज में राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत अपराध संख्या 133/06.6.2015 व 159/04.8.2016 को दर्ज हुये, जिनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। पुलिस अधीक्षक, सिरौही की रिपोर्ट अनुसार धारा 13 आर.पी. जी.ओ. के तहत गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त मुकदमों में बाद तफतीश गैरसायल के पेज तीन पर

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरौही-307001



विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, जिनके आरोप पत्रों की प्रतियां भी न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि उक्त अपराध संख्या 133/06.6.2015 व 159/04.8.2016 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 19.6.2015 व 06.9.2016 के अनुसार गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(V) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्डा की श्रेणी में आता है, लेकिन गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 04.8.2016 के बाद किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज होने बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। गैरसायल द्वारा लोगों को धमकाने व आतंकित करने के संबंध में भी साक्ष्य न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। गैरसायल के विरुद्ध उक्त दोनों मुकदमों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज होने बाबत कोई साक्ष्य न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। गैरसायल के विरुद्ध शांतिभंग करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही हुई हो, ऐसी भी साक्ष्य न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरौही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए गैरसायल युनुस खां पुत्र अब्दुल करीम, जाति- मुसलमान, निवासी- छावणी, शिवगंज को छः माह की अवधि के लिये नेकचलनी व शांति बनाये रखने हेतु पाबन्द कर आदेशित किया जाता है कि गैरसायल एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा गैरसायल भविष्य में कोई आपराधिक कृत्य नहीं करेगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निर्बन्धन एवं शर्तों का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि पचास हजार रुपये का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा।

आदेशानुसार गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। गैरसायल की यदि किसी अन्य मुकदमें में आवश्यकता नहीं हो तो गैरसायल को पुलिस अभिरक्षा से रिहा कर दिया जावे। निर्णय/आदेश से इजलास सुनाया गया।



(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरौही